



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹599 FOR
1 YEAR
BUY NOW

testbook

मिसाइल मैन ए पी जे अब्दुल कलाम- GK नोट्स का PDF डाउनलोड करें!

ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम के उल्लेख के बिना आधुनिक भारतीय इतिहास अपूर्ण है। वे एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक, राजनेता के रूप में देश में लोकप्रिय थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाने जाते हैं। **ए पी जे अब्दुल कलाम** का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इस लेख में हम एपीजे अब्दुल कलाम की 87 वीं जयंती पर इनके बारे में 12 दिलचस्प तथ्य बतायेंगे। जो की किसी भी प्रतिस्पर्धी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भारत के मिसाइल मैन के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।

"सपने" वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हो, बल्कि ये वो चीज है जो आपको नींद नहीं आने दे" - डॉ एपीजे अब्दुल कलाम

ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में 12 दिलचस्प तथ्य

- कठिनाईयों (Hardships):** कलाम के पिता जैनुलबुदेन एक नाव के मालिक और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनके पूर्वजों अमीर थे। लेकिन व्यापार में मिली असफलताओं के कारण, परिवार को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। परिवार में आई आपत्ति के कारण ए.पी.जे अब्दुल कलाम भी कई तरह की नौकरियां करने के लिए मजबूर थे। अपने परिवार को सहायता करने के उद्देश्य से वे समाचार पत्र भी बेचते थे।
- असफलता (Failures):** भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने का मौका कलाम ने गंवा दिया। वह सूची में 9वें स्थान पर थे, और केवल 8 ओपनिंग थी। पहले 8 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की भर्ती की गई थी।
- सशक्त भारतीय परमाणु मिशन (Empowered Indian Nuclear Mission):** कलाम ने भारत की परमाणु क्षमताओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पोखरण -2 परमाणु परीक्षण (1998 में) की सफलता में उनके संगठनात्मक और तकनीकी सहायताओं का बड़ा योगदान रहा है।
- ऑनर्स (Honours):** उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट के साथ सम्मानित किया गया।
- एयरपोर्ट पर ली गयी तलाशी (Frisking at Airport):** न्यूयॉर्क में जेएफके हवाई अड्डे पर कलाम की दो बार तलाशी ली गयी। हवाईअड्डे पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उनके प्राइवेट विमान में घुसकर उनकी तलाशी ली थी। कर्मचारियों के इस सख्त व्यवहार का भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया था।





testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹400 FOR
4 MONTHS
BUY NOW

testbook

6. **विज्ञान दिवस(Science Day):** कलाम की स्विट्जरलैंड की यात्रा देश में 'विज्ञान दिवस' के रूप में मनाई जाती है। इस महान व्यक्तित्व के दुखद निधन के बाद स्विस् सरकार ने उनके सम्मान में यह घोषणा की थी।
7. **वीवीएस कनेक्शन (The VVS Connection):**कलाम ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण को ही फॉलो करते थे। अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट से वे सिर्फ 38 लोगों को ही फॉलो करते थे।
8. **यूथ आइकन(Youth Icon):**2003 और 2006 में उन्हें दो बार 'एमटीवी यूथ आइकन' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
9. **पीपुल्स प्रेसिडेंट(People's President):**एक बार कलाम ने आतंकवाद के बारे में एक सवाल पूछने के लिए याहू का इस्तेमाल किया था। जिस पर उन्होंने पूछा, "आतंकवाद से विश्व को मुक्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?" इस सवाल पर उन्हें 30,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं थी।
10. **विजनरी(Visionary):** कलाम की इच्छा थी कि पूरे राष्ट्रपति भवन में सौर ऊर्जा के माध्यम से कार्य हो। हालांकि,अपने राष्ट्रपति पद की अवधि के दौरान वे इसे लागू नहीं कर पाए।
11. **उल्लेखनीय कार्य (Notable Gesture):** डॉ कलाम ने अपनी पुस्तक 'इंश्रिटेड माइंड्स' को कक्षा 12 की लड़की, स्नेहल ठाकर को समर्पित किया, जिन्होंने गरीबी पर उनकी प्रतिक्रिया से उन्हें प्रभावित किया था। उन्होंने 25 जुलाई, 2002 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्नेहल को आमंत्रित किया था।
12. **अंतिम दिन -अंतिम भाषण(Died Doing what he Loved):** अपने आखिरी दिन, वह आईआईएम, शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। वह मंच पर खड़े होकर सैकड़ों छात्रों को अपना भाषण दे रहे थे। लेकिन भाषण के बीच में कार्डियक अटैक आने के कारण वह जमीन पर गिर गए। देश में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए उन्होंने हमेशा उल्लेखनीय कार्य किए। और उस समय भी जब वे अपने आखिरी क्षणों में थे वे बच्चों के बीच में ही थे। ऐपीजे कलाम को बच्चे हमेशा से प्रिय थे।
13. **विश्व छात्र दिवस (World Student's Day):** अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहल 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल के पीछे उद्देश्य दुनिया भर के छात्रों के बीच विविधता, बहुसांस्कृतिकता और नवीनता को बढ़ावा देना है।

ए पी जे अब्दुल कलाम के पुरस्कार और उपलब्धियां

1. डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम को 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
2. बाद में, 1990 में, उन्हें सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ और इसरो की अगुआई के रूप में उनके अत्यधिक योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला।
3. भारत सरकार ने 1997 में भारत रत्न अवॉर्ड से भी ए पी जे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1954) और डॉ. जाकिर हुसैन (1963) के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे।



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹599 FOR
1 YEAR
BUY NOW

testbook

4. एसएलवी -3 परियोजनाओं और पीएसएलवी विकसित करने में उनके योगदान ने इसरो की सफलता में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
5. अक्टूबर 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी, यूके द्वारा किंग चार्ल्स -2 पदक से सम्मानित किया गया था।
6. उन्हें 2008 में प्रतिष्ठित वुडरो विल्सन पुरस्कार भी मिला।
7. वह कई प्रेरणादायक किताबों जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020: द विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, चिल्ड्रन ऑस्क कलाम आदि के लेखक हैं।
8. उन्हें 2013 में नेशनल स्पेस सोसायटी द्वारा वॉन ब्रौन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था।
9. भारत की मिसाइल टेस्ट साइट ओडिशा में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर 2015 में उनका सम्मान करने के लिए 'अब्दुल कलाम द्वीप' रखा गया।
नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम भी 'सोलिबैसिलस कलमी' रखा।

हमें आशा है कि यह लेख आपको पसंद आया होगा! इसी तरह के अन्य लेख भी पढ़ें।

भारत का योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना	नोबेल पुरस्कार विजेता-2018
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची	जानिये भारत के राज्य और राजधानियां
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2018	यूथ ओलंपिक गेम्स 2018

टेस्टबुक पर मुफ्त में प्रश्न हल करें।

[Solve Free Practice Questions on Testbook](#)

टेस्टबुक पर हमारे विशेषज्ञों के साथ चर्चा में शामिल हो।

[Go to Testbook Discuss!](#)

